



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]	नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16—जुलाई 22, 2016 (आषाढ़ 25, 1938)
No. 29]	NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16—JULY 22, 2016 (ASADHA 25, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2016

सेना शाखा

सं. 150, दिनांक 14 जून 2016—राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

फ्ला. लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

फ्ला. लेफ्टिनेंट शीला पी एम एस 17362-एक्स (ए एफ -33673 एन) आयोग की तिथि 11.02.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 11.08.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट टी अनीता एम एस 17401-एल (ए एफ -34062 के) आयोग की तिथि 01.11.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट टीनू सिंह एम एस 17412 एक्स (ए एफ- 32068-एन) आयोग की तिथि 01.11.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (बहिरीकरणशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट विवेक सिंह एम एस 17251-ए (ए एफ -33129 एल) आयोग की तिथि 18.04.2013 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 18.10.2012 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट नागपूरकर आशीष श्रीराम एम एस 17070-पी (ए एफ -32389 के) आयोग की तिथि 16.03.2013 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 16.09.2012 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट मकवाना दिपक मनसुखभाई एम एस 17367-डब्ल्यू (ए एफ -33668 जी) आयोग की तिथि 17.12.2013 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17.06.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट चिंचवाडे श्रेयांस बालासाहेब	एम एस -17403 डब्ल्यू (ए एफ -34063 एन)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सनेल सन्नी	एम एस -17408 पी (ए एफ -34065 ए)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सबिर अलि	एम एस-17409 एक्स (ए एफ-34066 एफ)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट पवन कुमार चिरिवेल्ला	एम एस -17411 पी (ए एफ-34067 एच)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अभिनव कलकल	एम एस -17416 एन (ए एफ-34071 एल)	ए एम सी	01.11.2014

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट ताजेश्वर सिंह औलख	<u>एम एस -17487 पी</u> (ए एफ-34087 टी)	ए एम सी	09.01.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट चोधरी जयश्री सवाभाई	<u>एम एस -17518 के</u> (ए एफ-34061 जी)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट प्रवीण कुमार	<u>एम एस -17526 एच</u> (ए एफ-34060 बी)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अनंतकृष्णन टी	<u>एम एस -17566 के</u> (ए एफ-34084 एच)	ए एम सी	05.01.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रंजित आई	<u>एम एस -17395 एच</u> (ए एफ -34058जी)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट नितीश आर एम	<u>एम एस -17396 एल</u> (ए एफ -34059के)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अरिहंत पाण्डे	<u>एम एस -17421वाई</u> (ए एफ -34073 टी)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रुबिना गेवाल	<u>एम एस -17563डब्ल्यू</u> (ए एफ -34082 ए)	ए एम सी	01.01.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अफसर खानम एस एम	<u>एम एस -17469 एम</u> (34088 बी)	ए एम सी	10.01.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट संतोषकुमार	<u>एम एस -17631 वाई</u> (34083 एफ)	ए एम सी	04.01.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट दीप्ती जगदीश	<u>एम एस -17559 एन</u> (ए एफ -34077 एन)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रोहित के पी	<u>एम एस -17560 पी</u> (ए एफ -34078 एस)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट कासा श्रावण कुमार रेड्डी	<u>एम एस -17414 एच</u> (34069 आर)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट मुकेश कुमार भामू	<u>एम एस -17415 एल</u> (34070 एच)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट आनन्द एस	<u>एम एस -17572 एक्स</u> (34091 बी)	ए एम सी	11.01.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट प्रभु स्वरूप श्रीकृष्ण	<u>एम एस -17650 के</u> (34079 ए)	ए एम सी	01.11.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट आकृति कश्यप	<u>एम एस -17656 एल</u> (34397 जी)	ए एम सी	06.06.2015
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के एम लीना कुंद्रा	<u>एम एस-17484 एफ</u> (34081 एस)	ए एम सी	31.12.2014

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान सुमीना बसंदरा एम एस 17406-के आयोग की तिथि 01.11.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसीन (कम्युनिटी मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान इन्दर प्रीत सिंह भाटिया एम एस-17371-वाई आयोग की तिथि 17.12.2013 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17.06.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान केतकी मनहास एम एस-16310-पी आयोग की तिथि 28.07.2009 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 28.01.2009 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान विकास कुमार एम एस 16972-एक्स आयोग की तिथि 21.09.2012 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 21.03.2012 से दी जाएगी। (इसमें हाउस जॉब के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान राठोड नितिन विथल एम एस 17399-वाई आयोग की तिथि 01.11.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.11.2012 से दी जाएगी। इसमें 24 महीने स्नातकोत्तर योग्यता ऑर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा के लिए पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान लक्ष्य प्रताप सिंह एम एस-17465-डब्ल्यू आयोग की तिथि 07.01.2015 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 07.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान नवीन के आर एम एस-17283-एच आयोग की तिथि 11.02.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 11.08.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान कुनाल अरोरा एम एस-17500-एन आयोग की तिथि 01.11.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सिद्धार्थ गोयल एम एस-17290-वाई आयोग की तिथि 13.03.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 13.09.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान ऋतू राज	एम एस -17687 एल	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान शेखर दत्त बाजपेयी	एम एस -17725 डब्ल्यू	ए एम सी	07.07.2015
कप्तान आशीष कुमार मिश्र	एम एस -17733 पी	ए एम सी	15.07.2015
कप्तान नीलम भगत	एम एस -17735 ए	ए एम सी	16.07.2015
कप्तान नेहा तोमर	एम एस -17736 एच	ए एम सी	17.07.2015
कप्तान भास्कर भिष्ट	एम एस -17748 एक्स	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान प्रांशु शर्मा	एम एस -17749 ए	ए एम सी	11.07.2015
कप्तान रवदीप कौर	एम एस -17755 एन	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान लोकेन्द्र राना	एम एस -17758 एफ	ए एम सी	25.06.2015
कप्तान मनप्रीत कौर बाजवा	एम एस -17766 ए	ए एम सी	16.07.2015
कप्तान परमवीर सिंह	एम एस -17773 डब्ल्यू	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान नवलदीप कौर	एम एस -17774 वाई	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान पंकज जनजानिया	एम एस -17808 एफ	ए एम सी	04.08.2015
कप्तान धैर्य खेरा	एम एस -17670 एक्स	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान भास्कर भारद्वाज	एम एस -17691 एन	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान नीरा सिंह	एम एस -17731 के	ए एम सी	14.07.2015
कप्तान नमिता सिंह	एम एस -17750 पी	ए एम सी	22.06.2015
कप्तान मनदीप सिंह कंग	एम एस -17767 एच	ए एम सी	22.06.2015
कप्तान आरती	एम एस -17775 एफ	ए एम सी	30.06.2015
कप्तान तरनजीत कौर	एम एस -17779 एक्स	ए एम सी	16.07.2015
कप्तान सुमीश बब्बर	एम एस -17800 पी	ए एम सी	04.08.2015

कप्तान देवेश पाण्डेय	एम एस -17804 एल	ए एम सी	04.08.2015
कप्तान प्रीतिका	एम एस -17823 डब्ल्यू	ए एम सी	06.08.2015
कप्तान सुदर्शन कुमार गर्ग	एम एस -17825 एफ	ए एम सी	06.08.2015
कप्तान रोहिणी आहेर	एम एस -17706 एल	ए एम सी	27.06.2015
कप्तान सिराजशरीफ बी नदाफ	एम एस -17652 पी	ए एम सी	01.01.2015
कप्तान ज्योतिस एम सी	एम एस 17671 ए	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान रचना	एम एस -17685 ए	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान रोहित दहिया	एम एस -17689 डब्ल्यू	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान रितु कालरा	एम एस 17701 एम	ए एम सी	25.06.2015
कप्तान शैलजा शर्मा	एम एस 17714 के	ए एम सी	30.06.2015
कप्तान दोबि श्रावण कुमार	एम एस 17715 एम	ए एम सी	30.06.2015
कप्तान दीपिका सिंह	एम एस 17719 एच	ए एम सी	01.07.2015
कप्तान प्रशान्त झा	एम एस 17732 एम	ए एम सी	15.07.2015
कप्तान मानवेन्द्र सिंह रावत	एम एस 17734 एक्स	ए एम सी	16.07.2015
कप्तान सुमीत सिंह	एम एस -17743 वाई	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान स्वप्निल श्रीवास्तव	एम एस -17792 एफ	ए एम सी	14.08.2015
कप्तान आशीष	एम एस -17796 एक्स	ए एम सी	01.01.2015
कप्तान अक्षया कुमार	एम एस -17842 एफ	ए एम सी	12.08.2015
कप्तान मीनाक्षी राजपूत	एम एस -16583 एक्स	ए एम सी	14.06.2010
कप्तान मनिंदर कौर ग्रेवल	एम एस -17479 डब्ल्यू	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान रेशु रवल	एम एस -17510 एक्स	ए एम सी	08.01.2015
कप्तान कागली अमेया महेश	एम एस -17536 एम	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान नेहा सुमन	एम एस -17674 एन	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान भदोरिया अंकुशसिंह टेकसिंह	एम एस -17680 एफ	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान अभिषेक सिंह	एम एस -17696 एम	ए एम सी	24.06.2015
कप्तान साहिल शर्मा	एम एस -17751 एक्स	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान अभिषेक कुमार सिंह	एम एस -17764 पी	ए एम सी	07.07.2015
कप्तान इन्दु गौड़	एम एस -17904 डब्ल्यू	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान सौमिता कर	एम एस -17905 वाई	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान प्रियामोल टी एम	एम एस - 17688 एन	ए एम सी	23.06.2015

कप्तान नलुबोला शिवा	एम एस - 17697 पी	ए एम सी	24.06.2015
कप्तान नवीन एस जी	एम एस - 17703 एक्स	ए एम सी	26.06.2015
कप्तान रैंडला रामकृष्ण	एम एस -17730 एफ	ए एम सी	10.07.2015
कप्तान श्रीराम एस	एम एस - 17757 वाई	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान अनुपम मौदगिल	एम एस -17781 पी	ए एम सी	17.07.2015
कप्तान राजदीप सिंह	एम एस - 17784 एच	ए एम सी	17.07.2015
कप्तान हरजसप्रीत सिंह	एम एस - 17785 एल	ए एम सी	17.07.2015
कप्तान अंकिता शर्मा	एम एस - 17802 ए	ए एम सी	04.08.2015
कप्तान इन्दरजीत सिंह	एम एस - 17807 वाई	ए एम सी	04.08.2015
कप्तान जोबनप्रीत सिंह	एम एस - 17811 एफ	ए एम सी	05.08.2015
कप्तान अमित वर्मा	एम एस - 17829 एक्स	ए एम सी	07.08.2015
कप्तान मनजिंदर कौर	एम एस - 17834 एच	ए एम सी	08.08.2015
कप्तान नवरत्न मिश्र	एम एस - 17836 एन	ए एम सी	10.08.2015
कप्तान शिवानी	एम एस - 17845 पी	ए एम सी	14.08.2015
कप्तान मनु हांडा	एम एस - 17780 एम	ए एम सी	17.07.2015
कप्तान नैना टम्टा	एम एस - 17790 डब्ल्यू	ए एम सी	11.08.2015
कप्तान अंशुल यादव	एम एस -17832 एक्स	ए एम सी	08.08.2015
कप्तान अनुभव वर्मा	एम एस -17848 एच	ए एम सी	14.08.2015
कप्तान पाटील विपुल पुरषोत्तम	एम एस -17651 एम	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान एच एम काशी विस्वनाथ	एम एस -17654 ए	ए एम सी	11.01.2015
कप्तान नेहा जैन	एम एस -17655 एच	ए एम सी	11.01.2015
कप्तान टी सोमन	एम एस -17428 एच	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान कार्तिक वर्धन एम	एम एस -17455 एम	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान श्रुति के एस	एम एस -17497 वाई	ए एम सी	11.01.2015
कप्तान मोहित कटारुका	एम एस -17562 एन	ए एम सी	01.01.2015
कप्तान अर्नब हलदर	एम एस -17569 एक्स	ए एम सी	08.01.2015
कप्तान अविनाश कुमार	एम एस -17284 एल	ए एम सी	11.02.2014
कप्तान दिनेश डेविस	एम एस -17447 एन	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान अनिल मंगवा	एम एस -17515 डब्ल्यू	ए एम सी	10.01.2015
कप्तान रेश्मी रामचंद्रन	एम एस -17673 एल	ए एम सी	23.06.2015

कप्तान तेनमुदन एम	एम एस -17677 एफ	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान निर्मल ज्योति एन के	एम एस -17678 के	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान गौरव गर्ग	एम एस -17686 एच	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान संजय यादव	एम एस -17692 डब्ल्यू	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान नवीन कुमार	एम एस -17694 एफ	ए एम सी	24.06.2015
कप्तान पूनम शेखावत	एम एस -17698 एक्स	ए एम सी	24.06.2015
कप्तान मनदीप सिंह राणा	एम एस -17702 पी	ए एम सी	26.06.2015
कप्तान अभिषेक कुमार	एम एस -17705 एच	ए एम सी	26.06.2015
कप्तान नेहा सिंह	एम एस -17712 वाई	ए एम सी	28.06.2015
कप्तान मधुस्मिता मोहंती	एम एस -17754 एल	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान यशा	एम एस -17762 के	ए एम सी	02.07.2015
कप्तान सुनील कुमार	एम एस -17777 एम	ए एम सी	09.07.2015
कप्तान कुमार गौरव	एम एस-17523 पी	ए एम सी	10.01.2015
कप्तान संजीव कुमार	एम एस -17546 डब्ल्यू	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान मोनिका	एम एस -17669 एच	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान उडीक सिंह	एम एस -17716 पी	ए एम सी	30.06.2015
कप्तान मंजूर अलि	एम एस -17718 ए	ए एम सी	01.07.2015
कप्तान शीना	एम एस -17720 एक्स	ए एम सी	02.07.2015
कप्तान पूजा	एम एस -17726 वाई	ए एम सी	09.07.2015
कप्तान संतोष कुमार	एम एस -17737 एल	ए एम सी	20.07.2015
कप्तान राज्जाकुर रहमान	एम एस -17233 एक्स	ए एम सी	17.12.2013
कप्तान किरण कुमार देवरशेटी	एम एस -17398 डब्ल्यू	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान निशु बाला	एम एस -17470 एफ	ए एम सी	10.01.2015
कप्तान गजेन्द्रगडकर मंदार यशवंत	एम एस -17486 एम	ए एम सी	07.01.2015
कप्तान मदिराला मंजीरा कृष्ण	एम एस -17648 एम	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान अतिरेक दत्त	एम एस-17668 ए	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान शपथ फोगाट	एम एस -17675 डब्ल्यू	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान ज्योती आर्य	एम एस -17684 एक्स	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान नवीन कुमार	एम एस -17695 के	ए एम सी	24.06.2015
कप्तान गोपीनाथ वी	एम एस -17183 एक्स	ए एम सी	06.08.2013

कप्तान सिंघु एन	एम एस -17498 एफ	ए एम सी	11.01.2015
कप्तान गडदे संदीप भारत	एम एस -17653 एक्स	ए एम सी	01.01.2015
कप्तान लोतोबमं भूमेशोरी देबी	एम एस -16614एम	ए एम सी	15.06.2010
कप्तान आशीष जैन	एम एस -17739 डब्ल्यू	ए एम सी	05.08.2015
कप्तान दिवटे सुनील उमाकांत	एम एस -17740 एल	ए एम सी	12.08.2015
कप्तान खनापुरे अमोल विजय	एम एस -17741 एन	ए एम सी	12.08.2015
कप्तान प्रणीत वशिष्ठ	एम एस -16697 एच	ए एम सी	16.06.2010
कप्तान पान्डेय किरीट राजेन्द्र	एम एस -17505 एम	ए एम सी	29.12.2014
कप्तान ढोले तुषार यादवराव	एम एस -17649 पी	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान मनोज राजे	एम एस -17449 वाई	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान टी वी नरेश कुमार	एम एस -17503 एफ	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान रूपक कुमार सिंह	एम एस -17533 वाई	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान अतुल कुमार जैन	एम एस -17638 एच	ए एम सी	11.01.2015
कप्तान आकाश पाण्डेय	एम एस -17641 एच	ए एम सी	11.01.2015
कप्तान मनदीप सिंह	एम एस -17646 एफ	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान तनवीर अहमद	एम एस -17033 एफ	ए एम सी	29.12.2012
कप्तान प्रतीत सुन्दराय	एम एस -17512 एच	ए एम सी	10.01.2015
कप्तान श्रीकांत एस	एम एस -17495 एन	ए एम सी	11.01.2015
कप्तान पंकज सम्मि	एम एस -17504 के	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान आरिफ अहमद	एम एस -17538 एक्स	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान रजत शुक्ला	एम एस -17544 एल	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान वैभव कुमार	एम एस -17550 वाई	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान रूपकिरण सिद्धू	एम एस -17555 एम	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान रोबिन दुबे	एम एस -17637 ए	ए एम सी	11.01.2015
कप्तान सुभाष सिंह	एम एस -17642 एल	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान युगांक राय	एम एस -17644 डब्ल्यू	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान अनुगुडाती सुधीन्द्र	एम एस -17645 वाई	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान विपिन कुमार मधेशिया	एम एस -17221 एच	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान हेमन्त सिंह चाहर	एम एस -17471 के	ए एम सी	10.01.2015
कप्तान के वाई वी एस चरण	एम एस -17501 डब्ल्यू	ए एम सी	01.11.2014

कप्तान चिन्मयी जयप्रकाश	एम एस -17519 एम	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान रविन्द्र बाबु आर	एम एस -17534 एफ	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान जनश्रुति	एम एस -17539 ए	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान स्नेहा रवि	एम एस -17543 एच	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान वसुंधरा मेहता	एम एस -17545 एन	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान राहुल नायक	एम एस -17556 ए	ए एम सी	01.11.2014
कप्तान अभिषेक शर्मा	एम एस -17629 एफ	ए एम सी	30.12.2014

राष्ट्रपति महोदय यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

लेफ्टी गगन दीप नीखरा	एम एस -17386 एफ	एएमसी	10.09.2014
लेफ्टी प्रसाद जयराम	एम एस -17312 एम	ए एम सी	27.03.2014
लेफ्टी राहुल गर्ग	एम एस -17381 एच	ए एम सी	10.09.2014
लेफ्टी चारु यादव	एम एस -17383 एन	ए एम सी	10.09.2014
लेफ्टी अभिलाष सिंह	एम एस -17385 वाई	ए एम सी	10.09.2014
लेफ्टी ललित किशोर त्रिपाठी	एम एस -17388 एम	ए एम सी	10.09.2014
लेफ्टी महेश कुमार ढाका	एम एस -17382 एल	ए एम सी	10.09.2014
लेफ्टी सुयश मिश्र	एम एस -17387 के	ए एम सी	10.09.2014
लेफ्टी मनीष सिंह	एम एस -17126 डब्ल्यू	ए एम सी	20.09.2013

राष्ट्रपति सहर्ष सेना अनुदेश 40/73 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)/ अल्पकालिक सेवा आयोग अधिकारियों की 06 अप्रैल 2015 से नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर 06 अप्रैल 2015 से प्रभावी (परख पर)

पद	नाम	पुराना सैन्य संख्या	नया व्यक्तिगत संख्या	आयोग की तिथि
हवलदार	सुरिंदर सिंह	15418551एन	एन टी एस 17639-एल	06 अप्रैल 2015
हवलदार	गजेंद्र सिंह	15418133वाई	एन टी एस 17640-ए	06 अप्रैल 2015
हवलदार	जगतार सिंह	15427135एल	एन टी एस 17641-एच	06 अप्रैल 2015

पद	नाम	पुराना सैन्य संख्या	नया व्यक्तिगत संख्या	आयोग की तिथि
नायक	उदय कुमार जे	15420562वाई	एन टी एस-17642एल	06 अप्रैल 2015
सिपाही	सुदिप्तो मंडल	15425571के	एन टी एस-17643एन	06 अप्रैल 2015

राष्ट्रपति महोदय यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना
अल्पकालीन कमीशन
(सेना चिकित्सा सेवा)

फ़्लाइंग ऑफिसर के पद पर (परख पर)

फ़्लाइंग ऑफिसर शुभम मिश्र	एम एस-17379 एल (34057 बी)	ए एम सी	10.09.2014
---------------------------	------------------------------	---------	------------

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टिनेंट गुन्जन मुखर्जी एम एस 17400-एच (76287 बी) आयोग की तिथि 01.11.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट अतुल एन गोपीनाथ एम एस 17568-पी (76294 डब्ल्यू) आयोग की तिथि 06.01.2015 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट देपेश गर्ग एम एस 17532-डब्ल्यू (76283 डब्ल्यू) आयोग की तिथि 01.11.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट आप्फिया सेफायर कथी एम एस 17430-ए (76288 एफ) आयोग की तिथि 01.11.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट सुधांशु शेखर एम एस 17535-के (76284 वाई) आयोग की तिथि 01.11.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट सिंह निखिल अशोक एम एस 17527-एल (76279-के) आयोग की तिथि 01.11.2014 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसीन में डी एन बी (मनोविकारशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट के आदित्य गोपाला राजु	<u>एमएस -17448 डब्ल्यू</u> 76291एन	एमसी	01.11.2014
सर्जन लेफ्टिनेंट एस राम कृष्ण राजू	<u>एमएस -16855 एम</u> (76132 ए)	एमसी	30.09.2011
सर्जन लेफ्टिनेंट तृष्णा नरेन्द्र तारलकर	<u>एमएस -17665M</u> (76280 एन)	एमसी	01.11.2014
सर्जन लेफ्टिनेंट प्रशान्ता जी बी	<u>एमएस -17540 पी</u> (76285-जेड)	एमसी	01.11.2014
सर्जन लेफ्टिनेंट वैदेही विरल शाह	<u>एम एस -17344 पी</u> 76248 आर	एमसी	19.10.2013
सर्जन लेफ्टिनेंट शिल्पा मंडल	<u>एम एस -17565 एफ</u> (76292आर)	एमसी	03.01.2015

राष्ट्रपति महोदय यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

सर्जन सब लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

सर्जन सब लेफ्टिनेंट हांडा शिवानी विजय	<u>एम एस -17578 वाई</u> (76330 ए)	एमसी	18.03.2015
सर्जन सब लेफ्टिनेंट रचना वर्मा	<u>एम एस-17585 पी</u> (76304 टी)	एमसी	18.03.2015
सर्जन सब लेफ्टिनेंट निखिल पी	<u>एम एस -17586 एक्स</u> (76305 डब्ल्यू)	एमसी	18.03.2015

सर्जन सब लेफ्टिनेन्ट सोहम दास	एम एस -17598 एम (76307 जेड)	एमसी	18.03.2015
सर्जन सब लेफ्टिनेन्ट मोनान्शु जैसवाल	एम एस -17599 पी (76308 ए)	एमसी	18.03.2015

आर के रान्याल

एयर कमांडोर

उप महानिदेशक (मा. सं.)

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय

सेना शाखा

सं. 151, दिनांक 15 जून 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को कल्पित पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

कर्नल (समय-मान) से कर्नल (चयन) के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर 16654-एन	कर्नल (समय-मान)	गोरख नाथ सिंह	01 जुलाई 2014

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल के पद पर

एमएस-15067 डब्ल्यू	मेजर	संजय कुमार झा	17.11.2015
एमएस-14723ए	मेजर	श्वेता शर्मा	30.12.2015
एमएस-14739एल	मेजर	अजय सिंह ठाकुर	30.12.2015
एमएस-15045एक्स	मेजर	राजेश कुमार	12.10.2015
एमएस-14802पी	लेफ्टि कर्नल	हरमनदीप सिंह बरार	29 मार्च 2015
एमएस-15060 एम	मेजर	सतिन्द्र पाल सिंह	19.10.2015
एमएस-15066एन	मेजर	रघुविन्द्र कुमार	17.11.2015
एमएस-14750के	ले. कर्नल	कौशलेन्द्र कुमार	17 अगस्त 2014
एमएस -14775डब्ल्यू	ले. कर्नल	रवि भूषण	17 फरवरी 2015
एमएस -14897ए	ले. कर्नल	प्रणव शंकर	04 जून 2015
एमएस-14974के	मेजर	नन्द किशोर साह	12 अक्टूबर 2015
एमएस -15639एम	मेजर	सोनू सिंह	06 सितम्बर 2015

सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर

एमएस-15811 एच (75976-वाई)	सर्जन लेफ्टिनेंट	राज कुमार रनबीर सिंह	25.10.2011
एमएस-16885-के (76140-डब्ल्यू)	सर्जन लेफ्टिनेंट	विनोद कुमार ए	17.01.2016
एम एस-16691एफ (76091एच)	सर्जन लेफ्टिनेंट	योगेश खुराना	16.06.2014
एम एस-16397 एफ (76055ए)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अनीष के पी	30.12.2013
एमएस-16837 के (76116 आर)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अरुण नारायणन	27 सितम्बर 2015
एमएस-17176 एफ(76236 एन)	सर्जन लेफ्टिनेंट	गगनदीप कौर रंधावा	06 अगस्त 2015
एमएस-16860एक्स(76113 एच)	सर्जन लेफ्टिनेंट	रागी जसविंदरपाल	21 अक्टूबर 2015
एमएस-16868के (76125 के)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अर्चना चौहान	22 नवम्बर 2015
एमएस-16811पी (76115 एन)	सर्जन लेफ्टिनेंट	प्रदीप वी	27 सितम्बर 2015
एमएस-16201एच(76062 टी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	महेश कुमार जैन	11 अगस्त 2013
एमएस-15702डब्ल्यू (75987वाई)	सर्ज लेफ्टि कमांडर	जीनो जोस	19 अगस्त 2013
एमएस -16169वाई (76019डब्ल्यू)	सर्ज लेफ्टि कमांडर	प्रेमा एम गोडी	11 अगस्त 2013
एमएस -16199 डब्ल्यू (76036एच)	सर्ज लेफ्टि कमांडर	अलोक कुमार	12 अगस्त 2013
एमएस -16718एन (76081के)	सर्ज लेफ्टि कमांडर	गोमती के	18 जून 2014
एमएस-16845एच (76130वाई)	सर्जन लेफ्टिनेंट	रबिन्द्र भुइया	28 मार्च 2015
एमएस -16853एफ (76121ए)	सर्जन लेफ्टिनेंट	हलनोर मंगेश मछिन्द्र	29 सितम्बर 2015
एमएस-16818वाई (76111बी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	निखिल कुमार मेस्था	27 सितम्बर 2015
एमएस -16840के (76112एफ)	सर्जन लेफ्टिनेंट	प्रतिभा चन्द्रा	27 सितम्बर 2015
एमएस-16857एक्स (76131जेड)	सर्जन लेफ्टिनेंट	सुभानकर दत्ता	30 सितम्बर 2015

कप्तान से मेजर के पद पर

एम एस -16414-डब्ल्यू	कप्तान	जोगिन्दर सिंह	30.06.2013
एम एस -16614-एम	मेजर	लोइटॉगबम भूमेशोवरी देवी	15 जून 2014
एम एस -16227-एक्स	कप्तान	नरेन्द्र यादव	12.08.2013
एम एस -16600एम	कप्तान	मयंक अग्रवाल	15 जून 2014
एम एस -15967ए	कप्तान	प्रवेन्द्र सिंह	11 फरवरी 2014
एमएस - 16605 एल	मेजर	प्रियंका त्रिपाठी	15 जून 2014
एमएस - 16738 एफ	मेजर	दिलीप रामकृष्णन	12 जुलाई 2014
एमएस - 16862 एच	मेजर	अपार माथुर	21 अक्टूबर 2015
एमएस - 16866 वाई	मेजर	विनीत विश्वकर्मा	22 मई 2015

एमएस - 16943एच	मेजर	रितिका पाल	02 नवम्बर 2015
एमएस-16538एल	मेजर	प्रियंका वाधवा	10 फ़रवरी 2015
एमएस-16649एच	मेजर	एम जियाउर रहमान हिफजुर रहमान	15 दिसंबर 2013
एमएस-16686डब्ल्यू	मेजर	एबीद अहमद	15 दिसंबर 2013
एमएस-16865डब्ल्यू	मेजर	अरुण एन	22 मई 2015
एमएस-16954पी	मेजर	राखी मोहन	01 दिसंबर 2013
एमएस-17157डब्ल्यू	मेजर	श्रीनिवास गुप्ता	06 अगस्त 2014
एमएस-17225वाई	मेजर	वैदेही सी राजवाडकर	19 अक्टूबर 2014
एमएस - 16577के	मेजर	तारुष सिन्हा	06 अगस्त 2015
एमएस - 16944एल	मेजर	गुलाब सिंह सरोहा	11 दिसम्बर 2015
एमएस - 17211वाई	मेजर	अजय त्यागी	19 अक्टूबर 2014
एम एस -16893एच	कप्तान	लोहित आर	17 जनवरी 2016
एम एस -17005पी	कप्तान	सोमेश ठाकुर	06 मई 2013
एम एस -17435वाई	कप्तान	पल्लवी गुप्ता	01 नवम्बर 2015
एम एस -17558एल	कप्तान	तुषार गोगिया	01 नवम्बर 2015
एमएस - 16872एम	मेजर	सन्दीप नाथ	22 नवम्बर 2015
एमएस - 16480वाई	मेजर	रजिंदर सिंह	09 जुलाई 2013
एमएस - 16267वाई	मेजर	शैलेश सिंह	26 अगस्त 2013
एम एस -16739के	कैप्टन	श्रीकान्त के एस	12 जुलाई 2014
एम एस-16850एन	कैप्टन	सिवसंकरी एम	29 मार्च 2013
एमएस -16951एफ	कैप्टन	भट्टाचार्या अनिर्बन त्रिगुनेस	11 सितम्बर 2013
एमएस -16952के	कैप्टन	मोहन अंगादी	11 सितम्बर 2013
एमएस -17136ए	कैप्टन	शिखा शर्मा	06 अगस्त 2014
एमएस -17279ए	कैप्टन	खर्चे चेतन रामचंद्र	11 फरवरी 2015
एम एस -16859एच	कैप्टन	नेहा रेचल बिश्वास	21 अप्रैल 2015
एम एस-16377एन	कैप्टन	रोहिन कुमार	29 दिसम्बर 2013
एम एस-16506एच	कप्तान	रोहन वत्स	09 फरवरी 2014
एम एस -16576एफ	कप्तान	निर्झर घोष	06 अगस्त 2015
एम एस -16807एम	कप्तान	सुमेधा वत्स	26 सितम्बर 2015
एम एस -16809एक्स	कप्तान	पूजा शर्मा	26 सितम्बर 2015

एम एस -16817डब्ल्यू	कप्तान	इकराज सिंह	27 सितम्बर 2015
एम एस -16831एच	कप्तान	अरोमा घोत्रा	27 सितम्बर 2015
एम एस -16841एम	कप्तान	गुरजोत सिंह	27 सितम्बर 2015
एम एस -16843एक्स	कप्तान	सबरिराजन पी	27 सितम्बर 2015
एम एस -16844ए	कप्तान	अखिल राज एन पी	27 सितम्बर 2015
एम एस -17245एम	कप्तान	अमिताभ लायेक	19 अप्रैल 2014
एम एस -16851डब्ल्यू	कप्तान	पंकज वत्स	29 सितम्बर 2015
एम एस -15933एम	कप्तान	हरी राम प्रसाद	30 सितम्बर 2012
एम एस -16742के	कप्तान	नितिन गुप्ता	14 जनवरी 2014
एम एस -16889ए	कप्तान	विश्वविजीत मोपागर	17 जनवरी 2013
एम एस -17226एफ	कप्तान	शिवनान्दा मलिक	19 अप्रैल 2014
एम एस -17240एन	कप्तान	संधिता बरुई	21 मार्च 2014
एम एस -17241डब्ल्यू	कप्तान	परीक्षित सान्याल	21 मार्च 2014
एम एस -16560डब्ल्यू	कप्तान	विपिन कुमार पाठक	10 फरवरी 2015

लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद पर

एमएस -17093-डब्ल्यू	कप्तान	कुमुद किशलय्या	01.03.2014
एमएस -17127-वाई	कप्तान	माथ्युस एन माथ्यु	24.08.2014
एमएस -17330-पी	कप्तान	ओम पाण्डा	03.03.2015
एमएस -17385-वाई	कप्तान	अभिलाष सिंह	07.08.2015
एमएस -17318-एन	कप्तान	एस विष्णु प्रसाद पिल्ले	01.03.2015
एमएस -17334-एल	कप्तान	बिम्बित कुमार मिश्र	03.03.2015
एमएस -17303 एल	कप्तान	शिखर गर्ग	03 मार्च 2015
एमएस -17306 वाई	कप्तान	प्राची वर्मा	03 मार्च 2015
एमएस -17309 एम	कप्तान	अमृत शोवन दाश	03 मार्च 2015
एमएस -17324 एफ	कप्तान	यादवेन्द्र सिंह	03 मार्च 2015
एमएस -17111एन	लेफ्टिनेंट	आर प्रमोद	01 मार्च 2014
एमएस -17320एल	कप्तान	नचिकेता	03 मार्च 2015
एमएस -17295-एक्स	लेफ्टिनेंट	वरुण भाटिया	03 मार्च 2015
एमएस -16914 एन	कप्तान	अखिल के आर	23 फरवरी 2013

एमएस -17310 एफ	कप्तान	सर्वेश कोहली	03 मार्च 2015
एमएस -17297 एच	कप्तान	अंकित कुमार	03 मार्च 2015
एमएस -17314 एक्स	कप्तान	ज्योति मिश्र	03 मार्च 2015
एमएस -17323 वाई	कप्तान	अभिजीत गोहैन	03 मार्च 2015
एमएस - 17338 एफ	कप्तान	अंकित ढाका	03 मार्च 2015
एमएस -17102एम	कप्तान	सय्यद फराज़ इकबाल	01 मार्च 2014
एमएस -17299एन	कप्तान	संवेदना खत्री	03 मार्च 2015
एमएस -17333एच	कप्तान	अक्षय जैन	03 मार्च 2015
एमएस -17335एन	कप्तान	तजबिंदर सिंह बैन्स	03 मार्च 2015
एमएस -17110एल	कप्तान	फिनेहस पिंटो एम	01 मार्च 2014
एमएस -17304एन	कप्तान	सुनंदा यादव	03 मार्च 2015
एमएस -17327पी	कप्तान	अमित अटवाल	03 मार्च 2015

सर्जन सब लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

एमएस-17294पी (76269एन)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	एमडी दीपू राजन	03 मार्च 2015
एमएस-17319डब्ल्यू (76265बी)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	जोस पी डेविस	03 मार्च 2015

आर के रान्याल
एयर कमांडोर
उप महानिदेशक (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 152, दिनांक 16 जून 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त कि अवधि पूरी होने पर सैनिक सेवा से निवृत्ती होने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त की तिथि
एन टी आर - 16654एन	कर्नल	गोरख नाथ सिंह	04 जनवरी 1958	31 जनवरी 2015 (अपराहन)
एन टी आर -16602एक्स	लेफ्टिनेंट कर्नल	कमल सिंह	05 फरवरी 1959	28 फरवरी 2015 (अपराहन)

आर के रान्याल
एयर कमांडोर
उप महानिदेशक (मा.सं.)
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय

सेना शाखा

सं. 153, दिनांक 17 जून 2016—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

शुद्धि पत्र

वेतन और पदोन्नती के लिए एम एस -16942 ए कप्तान हरकुवर सिंह को दिया गया ज्येष्ठता जो की 30 अगस्त 2014 राजपत्र में प्रकाशित किया है, इस में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

के लिए : 02.12.2011

पढ़े : 02.11.2011

शुद्धि पत्र

वेतन और पदोन्नती के लिए एम एस -16477 वाई कप्तान ज्योति मोतीराम गुल्वे (आयोग की तिथि : 09 जनवरी 2010) को अस्पताल नियुक्त के लिये 06 महीने पहले से ज्येष्ठता दी गई है जो की 09 जुलाई 2009 से है यह अधिसूचना भारत के राजपत्र दिनांक 16.02.2016 में प्रकाशित हो चुकी है इसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

के लिए	:	कप्तान की वरिष्ठता की तिथि	मेजर की वरिष्ठता की तिथि
		09.01.2010	09.01.2014

पढ़े	:	कप्तान की वरिष्ठता की तिथि	मेजर की वरिष्ठता की तिथि
		09.07.2009	09.07.2013

आर के रान्याल

एयर कमोडोर

उप महानिदेशक (मा.सं.)

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th July 2016

(ARMY BRANCH)

No. 150, dated 14th June 2016—The President is pleased to make the following appointments for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :-

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
(TO BE FLT LT ON PROBATION)

FLT LT SHEELA P MS-17362X (AF-33673-N) DOC- 11.02.2014

With seniority for pay and promotion from 11.08.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT T ANITHA MS-17401L (AF-34062-K) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT TEENU SINGH MS-17412X (AF-32068-N) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (Anaesthesiology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT VIVEK SINGH MS-17251A (AF-33129-L) DOC- 18.04.2013

With seniority for pay and promotion from 18.10.2012. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT NAGPURKAR ASHISH SHRIRAM MS-17070P (AF-32389-K) DOC- 16.03.2013

With seniority for pay and promotion from 16.09.2012. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT MAKWANA DIPAK MANSUKHBHAI MS-17367W (AF-33668-G) DOC- 17.12.2013

With seniority for pay and promotion from 17.06.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT CHINCHAWADE SHREYANS BALASAHEB	<u>MS-17403W</u> AF-34063N	AMC	01.11.2014
FLT LT SANEL SUNNY	<u>MS-17408P</u> AF-34065A	AMC	01.11.2014
FLT LT SABIR ALI	<u>MS-17409X</u> AF-34066F	AMC	01.11.2014
FLT LT PAVAN KUMAR CHIRIVELA	<u>MS-17411P</u> AF-34067H	AMC	01.11.2014
FLT LT ABHINAV KALKAL	<u>MS-17416N</u> AF-34071L	AMC	01.11.2014
FLT LT TAJESHWAR SINGH AULAKH	<u>MS-17487P</u> AF-34087T	AMC	09.01.2015

FLT LT CHAUDHARI JAYSHRI SAVABHAI	<u>MS-17518K</u> AF-34061G	AMC	01.11.2014
FLT LT PRAVEEN KUMAR	<u>MS-17526H</u> AF-34060B	AMC	01.11.2014
FLT LT ANANDHAKRISHNAN T	<u>MS-17566K</u> AF-34084H	AMC	05.01.2015
FLT LT RENJITH I	<u>MS-17395H</u> 34058G	AMC	01.11.2014
FLT LT NITISH RM	<u>MS-17396L</u> 34059K	AMC	01.11.2014
FLT LT ARIHANT PANDEY	<u>MS-17421Y</u> 34073T	AMC	01.11.2014
FLT LT ROOBINA GREWAL	<u>MS-17563W</u> 34082A	AMC	01.01.2015
FLT LT AFSER KHANUM SM	<u>MS-17469M</u> 34088B	AMC	10.01.2015
FLT LT SANTHOSHKUMAR	<u>MS-17631Y</u> 34083F	AMC	04.01.2015
FLT LT DEEPTHY JAGADISH	<u>MS-17559N</u> AF-34077N	AMC	01.11.2014
FLT LT ROHITH KP	<u>MS-17560H</u> AF-34078S	AMC	01.11.2014
FLT LT KASA SRAVAN KUMAR REDDY	<u>MS-17414H</u> 34069R	AMC	01.11.2014
FLT LT MUKESH KUMAR BHAMU	<u>MS-17415L</u> 34070H	AMC	01.11.2014
FLT LT ANAND S	<u>MS-17572X</u> 34091B	AMC	11.01.2015
FLT LT PRABHU SWARUP SHRIKRISHNA	<u>MS-17650K</u> (34079A)	AMC	01.11.2014
FLT LT AKRITI KASHYAP	<u>MS-17656L</u> (34397G)	AMC	06.06.2015
FLT LT KM LEENA KUNDRA	<u>MS-17484 F</u> (34081 S)	AMC	31.12.2014

(TO BE CAPT ON PROBATION)

CAPT SUMEENA BASANDRA MS-17406K DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree MD (Community Medicine), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPTINDER PREET SINGH BHATIA MS-17371Y DOC- 17.12.2013

With seniority for pay and promotion from 17.06.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT KAETIKI MANHAS MS-16310P DOC- 28.07.2009

With seniority for pay and promotion from 28.01.2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT VIKAS KUMAR (MS-16972X) DOC- 21.09.2012

With seniority for pay and promotion from 21.03.2012. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT RATHOD NITIN VITHAL MS-17399Y DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2012. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in (Orthopaedics (D.Ortho)), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT LAKSHAYA PRATAP SINGH MS-17465W DOC- 07.01.2015

With seniority for pay and promotion from 07.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NAVEEN KR MS-17283H DOC- 11.02.2014

With seniority for pay and promotion from 11.08.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT KUNAL ARORA MS-17500N DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SIDHARTH GOEL MS-17290Y DOC- 13.03.2014

With seniority for pay and promotion from 13.09.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT RITU RAJ	MS-17687L	AMC	23.06.2015
CAPT SHEKHAR DUTT BAJPEYEE	MS-17725W	AMC	07.07.2015
CAPT ASHISH KUMAR MISHRA	MS-17733P	AMC	15.07.2015
CAPT NEELAM BHAGAT	MS-17735A	AMC	16.07.2015
CAPT NEHA TOMAR	MS-17736H	AMC	17.07.2015
CAPT BHASKAR BISHT	MS-17748X	AMC	23.06.2015
CAPT PRANSHU SHARMA	MS-17749A	AMC	11.07.2015
CAPT RAVDEEP KAUR	MS-17755N	AMC	23.06.2015
CAPT LOKENDRA RANA	MS-17758F	AMC	25.06.2015
CAPT MANPREET KAUR BAJWA	MS-17766A	AMC	16.07.2015
CAPT PARAMVIR SINGH	MS-17773W	AMC	23.06.2015
CAPT NAVALDEEP KAUR	MS-17774Y	AMC	23.06.2015
CAPT PANKAJ JANJANIA	MS-17808F	AMC	04.08.2015
CAPT DHAIRYA KHERA	MS-17670X	AMC	23.06.2015
CAPT BHASKAR BHARDWAJ	MS-17691N	AMC	23.06.2015
CAPT NEERA SINGH	MS-17731K	AMC	14.07.2015
CAPT NAMITA SINGH	MS-17750P	AMC	22.06.2015

CAPT MANDEEP SINGH KANG	MS-17767H	AMC	22.06.2015
CAPT ARTI	MS-17775F	AMC	30.06.2015
CAPT TARANJEET KAUR	MS-17779X	AMC	16.07.2015
CAPT SUMEESH BABBAR	MS-17800P	AMC	04.08.2015
CAPT DEVESH PANDEY	MS-17804L	AMC	04.08.2015
CAPT PRITIKA	MS-17823W	AMC	06.08.2015
CAPT SUDARSHAN KUMAR GARG	MS-17825F	AMC	06.08.2015
CAPT ROHINI AHER	MS-17706L	AMC	27.06.2015
CAPT SIRAJSHARIF B NADAF	MS-17652P	AMC	01.01.2015
CAPT JYOTHIS MC	MS-17671A	AMC	23.06.2015
CAPT RACHNA	MS-17685A	AMC	23.06.2015
CAPT ROHIT DAHIA	MS-17689W	AMC	23.06.2015
CAPT REETU KALRA	MS-17701M	AMC	25.06.2015
CAPT SHAILAJA SHARMA	MS-17714K	AMC	30.06.2015
CAPT DOBI SRAVAN KUMAR	MS-17715M	AMC	30.06.2015
CAPT DEEPIKA SINGH	MS-17719H	AMC	01.07.2015
CAPT PRASHANT JHA	MS-17732M	AMC	15.07.2015
CAPT MANVENDRA SINGH RAWAT	MS-17734X	AMC	16.07.2015
CAPT SUMEET SINGH	MS-17743Y	AMC	01.11.2014
CAPT SWAPNIL SRIVASTAVA	MS-17792F	AMC	14.08.2015
CAPT ASHISH	MS-17796X	AMC	01.01.2015
CAPT AKSHAYA KUMAR	MS-17842F	AMC	12.08.2015
CAPT MEENAKASHI RAJPUT	MS-16583X	AMC	14.06.2010
CAPT MANINDER KAUR GREWAL	MS-17479W	AMC	01.11.2014
CAPT RESHU RAWAL	MS-17510X	AMC	08.01.2015
CAPT KAGALI AMEYA MAHESH	MS-17536M	AMC	01.11.2014
CAPT NEHA SUMAN	MS-17674N	AMC	23.06.2015
CAPT BHADORIA ANKUSHSINH TEKSINH	MS-17680F	AMC	23.06.2015
CAPT ABHISHEK SINGH	MS-17696M	AMC	24.06.2015
CAPT SAHIL SHARMA	MS-17751X	AMC	23.06.2015
CAPT ABHISHEK KUMAR SINGH	MS-17764P	AMC	07.07.2015
CAPT INDU GAUR	MS-17904W	AMC	01.11.2014
CAPT SOUMITA KAR	MS-17905Y	AMC	23.06.2015
CAPT PRIYAMOL TM	MS-17688N	AMC	23.06.2015
CAPT NALUBOLA SHIVA	MS-17697P	AMC	24.06.2015
CAPT NAVEENA SG	MS-17703X	AMC	26.06.2015
CAPT RENDLA RAMAKRISHNA	MS-17730F	AMC	10.07.2015
CAPT SRIRAM S	MS-17757Y	AMC	23.06.2015
CAPT ANUPAM MOUDGIL	MS-17781P	AMC	17.07.2015

CAPT RAJDEEP SINGH	MS-17784H	AMC	17.07.2015
CAPT HARJASPREET SINGH	MS-17785L	AMC	17.07.2015
CAPT ANKITA SHARMA	MS-17802A	AMC	04.08.2015
CAPT INDERJEET SINGH	MS-17807Y	AMC	04.08.2015
CAPT JOBANPREET SINGH	MS-17811F	AMC	05.08.2015
CAPT AMIT VERMA	MS-17829X	AMC	07.08.2015
CAPT MANJINDER KAUR	MS-17834H	AMC	08.08.2015
CAPT NAVRATNA MISHRA	MS-17836N	AMC	10.08.2015
CAPT SHIVANI	MS-17845P	AMC	14.08.2015
CAPT MANU HANDA	MS-17780M	AMC	17.07.2015
CAPT NAINA TAMTA	MS-17790W	AMC	11.08.2015
CAPT ANSHUL YADAV	MS-17832X	AMC	08.08.2015
CAPT ANUBHAV VERMA	MS-17848H	AMC	14.08.2015
CAPT PATIL VIPUL PURSHOTTAM	MS-17651M	AMC	01.11.2014
CAPT HM KASI VISWANATH	MS-17654A	AMC	11.01.2015
CAPT NEHA JAIN	MS-17655H	AMC	11.01.2015
CAPT T SOMAN	MS-17428H	AMC	01.11.2014
CAPT KARTHEEK VARDHAN M	MS-17455M	AMC	01.11.2014
CAPT SHRUTHI KS	MS-17497Y	AMC	11.01.2015
CAPT MOHIT KATARUKA	MS-17562N	AMC	01.01.2015
CAPT ARNAB HALDAR	MS-17569X	AMC	08.01.2015
CAPT AVINASH KUMAR	MS-17284L	AMC	11.02.2014
CAPT DHINESH DAVIS	MS-17447N	AMC	01.11.2014
CAPT ANIL MANGAWA	MS-17515W	AMC	10.01.2015
CAPT RESMI RAMACHANDRAN	MS-17673L	AMC	23.06.2015
CAPT THENAMUDAN M	MS-17677F	AMC	23.06.2015
CAPT NIRMAL JYOTHI NK	MS-17678K	AMC	23.06.2015
CAPT GAURAV GARG	MS-17686H	AMC	23.06.2015
CAPT SANJAY YADAV	MS-17692W	AMC	23.06.2015
CAPT NAVEEN KUMAR	MS-17694F	AMC	24.06.2015
CAPT POONAM SHEKHAWAT	MS-17698X	AMC	24.06.2015
CAPT MANDEEP SINGH RANA	MS-17702P	AMC	26.06.2015
CAPT ABHISHEK KUMAR	MS-17705H	AMC	26.06.2015
CAPT NEHA SINGH	MS-17712Y	AMC	28.06.2015
CAPT MADHUSMITA MOHANTY	MS-17754L	AMC	23.06.2015
CAPT YASHA	MS-17762K	AMC	02.07.2015
CAPT SUNIL KUMAR	MS-17777M	AMC	09.07.2015
CAPT KUMAR GAURAV	MS-17523P	AMC	10.01.2015

CAPT SANJEEV KUMAR	MS-17546W	AMC	01.11.2014
CAPT MONIKA	MS-17669H	AMC	23.06.2015
CAPT UDEEK SINGH	MS-17716P	AMC	30.06.2015
CAPT MANZOOR ALI	MS-17718A	AMC	01.07.2015
CAPT SHEENA	MS-17720X	AMC	02.07.2015
CAPT POOJA	MS-17726Y	AMC	09.07.2015
CAPT SANTOSH KUMAR	MS-17737L	AMC	20.07.2015
CAPT RAZZAKUR RAHMAN	MS-17233X	AMC	17.12.2013
CAPT KIRAN KUMAR DEVARSHETTY	MS-17398W	AMC	01.11.2014
CAPT NISHU BALA	MS-17470F	AMC	10.01.2015
CAPT GAJENDRAGADKAR MANDAR YASHVANT	MS-17486M	AMC	07.01.2015
CAPT MADDIRALA MANJEERA KRISHNA	MS-17648M	AMC	01.11.2014
CAPT ATIREK DUTT	MS-17668A	AMC	23.06.2015
CAPT SHAPATH PHOGAT	MS-17675W	AMC	23.06.2015
CAPT JYOTI ARYA	MS-17684X	AMC	23.06.2015
CAPT NAVEEN KUMAR	MS-17695K	AMC	24.06.2015
CAPT GOPINATH V	MS-17183X	AMC	06.08.2013
CAPT SINDHU N	MS-17498F	AMC	11.01.2015
CAPT GADADE SANDEEP BHARAT	MS-17653X	AMC	01.01.2015
CAPT LOITONGBAM BHUMESHOWRI DEVI	MS-16614M	AMC	15.06.2010
CAPT ASHISH JAIN	MS-17739W	AMC	05.08.2015
CAPT DIWATE SUNIL UMAKANT	MS-17740L	AMC	12.08.2015
CAPT KHANAPURE AMOL VIJAY	MS-17741N	AMC	12.08.2015
CAPT PRANEET VASHISHTHA	MS-16697H	AMC	16.06.2010
CAPT PANDEY KIRIT RAJENDRA	MS-17505M	AMC	29.12.2014
CAPT DHOLE TUSHAR YADAWARAO	MS-17649P	AMC	01.11.2014
CAPT MANOJ RAJE	MS-17449Y	AMC	01.11.2014
CAPT TV NARESH KUMAR	MS-17503F	AMC	01.11.2014
CAPT RUPAK KUMAR SINGH	MS-17533Y	AMC	01.11.2014
CAPT ATUL KUMAR JAIN	MS-17638H	AMC	11.01.2015
CAPT AAKASH PANDEY	MS-17641H	AMC	11.01.2015
CAPT MANDEEP SINGH	MS-17646 F	AMC	01.11.2014
CAPT TANVEER AHMED	MS-17033F	AMC	29.12.2012
CAPT PRATIT SUNDARAY	MS-17512H	AMC	10.01.2015
CAPT SRIKANTH S	MS-17495N	AMC	11.01.2015
CAPT PANKAJ SUMMI	MS-17504K	AMC	01.11.2014
CAPT ARIF AHMED	MS-17538X	AMC	01.11.2014
CAPT RAJAT SHUKLA	MS-17544L	AMC	01.11.2014
CAPT VAIBHAW KUMAR	MS-17550Y	AMC	01.11.2014
CAPT ROOPKIRAN SIDHU	MS-17555M	AMC	01.11.2014

CAPT ROBIN DUBEY	MS-17637A	AMC	11.01.2015
CAPT SUBHASH SINGH	MS-17642 L	AMC	01.11.2014
CAPT YUGANK RAI	MS-17644 W	AMC	01.11.2014
CAPT ANUGUDATI SUDHEENDRA	MS-17645 Y	AMC	01.11.2014
CAPT VIPIN KUMAR MADHESIA	MS-17221H	AMC	19.10.2013
CAPT HEMANT SINGH CHAHAR	MS-17471K	AMC	10.01.2015
CAPT KYVS CHARAN	MS-17501W	AMC	01.11.2014
CAPT CHINMAYI JAYAPRAKASH	MS-17519M	AMC	01.11.2014
CAPT RAVINDRA BABU R	MS-17534F	AMC	01.11.2014
CAPT JANSRUTI	MS-17539A	AMC	01.11.2014
CAPT SNEHA RAVI	MS-17543H	AMC	01.11.2014
CAPT VASUNDHARA MEHTA	MS-17545N	AMC	01.11.2014
CAPT RAHUL NAYAK	MS-17556A	AMC	01.11.2014
CAPT ABHISHEK SHARMA	MS-17629F	AMC	30.12.2014

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as a mended:-

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
(To be LIEUT on probation)

LT GAGAN DEEP NEEKHARA	MS-17386 F	AMC	10.09.2014
LT PRASAD JAYARAM	MS-17312 M	AMC	27.03.2014
LT RAHUL GARG	MS-17381H	AMC	10.09.2014
LT CHARU YADAV	MS-17383N	AMC	10.09.2014
LT ABHILASH SINGH	MS-17385Y	AMC	10.09.2014
LT LALIT KISHOR TRIPATHI	MS-17388M	AMC	10.09.2014
LT MAHESH KUMAR DHAKA	MS-17382 L	AMC	10.09.2014
LT SUYASH MISHRA	MS-17387 K	AMC	10.09.2014
LT MANISH SINGH	MS-17126 W	AMC	20.09.2013

The President is pleased to make the following appointment under AI 40/73 with effect from 06 Apr 2015, in AMC/SSC (Non Tech) officers :-

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
AS LIEUTENANT WEF 06 APR 2015 (ON PROBATION)

Rank	Name	Old number and allotted new personal number		Date of Commission
		Old Army No	New Pers No	
Hav/Clk(SD)	Surinder Singh	15418551N	NTS-17639-L	06 Apr 2015
Hav/ORA	Gajender Singh	15418133Y	NTS-17640-A	06 Apr 2015
Hav/SKT	Jagtar Singh	15427135L	NTS-17641-H	06 Apr 2015
NK/Lab Asst	Udaya Kumar J	15420562Y	NTS-17642-L	06 Apr 2015
Sep/STA	Sudipto Mondal	15425571K	NTS-17643-N	06 Apr 2015

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:-

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION

(To be FG OFFR on probation)

FG OFFR SHUBHAM MISHRA	<u>MS-17379L</u> (34057B)	AMC	10.09.2014
------------------------	------------------------------	-----	------------

The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :-

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION

(TO BE SURG LT ON PROBATION)

SURG LT GUNJAN MUKHERJEE MS-17400H (76287-B) DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT ATHUL N GOPINATH MS-17568P (76294-W) DOC- 06.01.2015

With seniority for pay and promotion from 06.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT DEEPESH GARG MS-17532W (76283-W) DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT APPHIA SAPHIR KATHI MS-17430A (76288-F) DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT SUDHANSU SHEKHAR MS-17535K (76284-Y) DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT SINGH NIKHIL ASHOK MS-17527 (76279K) DOC- 01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2011. This includes 36 months antedate for PG Degree DNB (Psychiatry), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT K ADITYA GOPALA RAJU	<u>MS-17448W</u> (76291N)	AMC	01.11.2014
SURG LT S RAMA KRISHNA RAJU	<u>MS-16855 M</u> (76132A)	AMC	30.09.2011
SURG LT TRISHNA NARENDRA TARALKAR	<u>MS-17665M</u> (76280N)	AMC	01.11.2014
SURG LT PRASHANTHA GB	<u>MS-17540P</u> (76285-Z)	AMC	01.11.2014
SURG LT VAIDEHI VIRAL SHAH	<u>MS-17344P</u> (76248R)	AMC	19.10.2013
SURG LT SHILPA MANDAL	<u>MS-17565F</u> (76292R)	AMC	03.01.2015

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:-

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
(To be SURG SUB LT on probation)

SURG SUB LT HANDA SHIVANI VIJAY	<u>MS-17578Y</u> (76330A)	AMC	18.03.2015
SURG SUB LT RACHNA VERMA	<u>MS-17585P</u> (76304T)	AMC	18.03.2015
SURG SUB LT NIKHIL P	<u>MS-17586X</u> (76305W)	AMC	18.03.2015
SURG SUB LT SOHAM DAS	<u>MS-17598M</u> (76307Z)	AMC	18.03.2015
SURG SUB LT MONANSHU JAISWAL	<u>MS-17599P</u> (76308A)	AMC	18.03.2015

RK RANYAL
Air Cmde
Dy DGAFMS (HR)

(ARMY BRANCH)

No. 151, dated 15th June 2016—The President is pleased to make the following notional promotion :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
COL (TIME SCALE) TO COL (SELECT)

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16654N	Col (TS)	Gorakh Nath Singh	01 Jul 2014

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS
MAJ TO LT COL

MS-15067W	Maj	Sanjay Kumar Jha	17.11.2015
MS-14723A	Maj	Shweta Sharma	30.12.2015
MS-14739L	Maj	Ajay Singh Thakur	30.12.2015
MS-15045X	Maj	Rajesh Kumar	12.10.2015
MS-14802P	Lt Col	Harmandeep Singh Brar	29 Mar 2015
MS-15060M	Maj	Satinder Pal Singh	19.10.2015
MS-15066N	Maj	Raghuvinder Kumar	17.11.2015
MS-14750K	Lt Col	Kaushlendra Kumar	17 Aug 2014
MS-14775W	Lt Col	Ravi Bhushan	17 Feb 2015
MS-14897A	Lt Col	Pranav Shankar	04 Jun 2015
MS-14974K	Maj	Nand Kishore Sah	12 Oct 2015
MS-15639M	Maj	Sonu Singh	06 Sep 2015

SURG LT TO SURG LT CDR

MS-15811H(75976Y)	Surg Lt	Raj Kumar Ranbir Singh	25.10.2011
MS-16885K (76140-W)	Surg Lt	Vinod Kumar A	17.01.2016
MS-16691F (76091H)	Surg Lt	Yogesh Khurana	16.06.2014
MS-16397F (76055A)	Surg Lt	Aneesh KP	30.12.2013
MS-16837K (76116-R)	Surg Lt	Arun Narayanan	27 Sep 2015
MS-17176F (76236-N)	Surg Lt	Gagandeep Kaur Randhawa	06 Aug 2015
MS-16860X (76113-H)	Surg Lt	Ragi Jasvinderpal Singh	21 Oct 2015
MS-16868K (76125-K)	Surg Lt	Archana Chauhan	22 Nov 2015
MS-16811P (76115-N)	Surg Lt	Pradeep V	27 Sep 2015
MS-16201H (76062-T)	Surg Lt	Mahesh Kumar Jain	11 Aug 2013
MS-15702W (75987Y)	Surg Lt Cdr	Jino Jose	19 Aug 2013
MS-16169Y (76019W)	Surg Lt Cdr	Prema S Godi	11 Aug 2013
MS-16199W (76036H)	Surg Lt Cdr	Alok Kumar	12 Aug 2013
MS-16718N (76081K)	Surg Lt Cdr	Gomathi K	18 Jun 2014
MS-16845H (76130Y)	Surg Lt	Rabindra Bhunia	28 Mar 2015
MS-16853F (76121A)	Surg Lt	Halnor Mangesh Machindra	29 Sep 2015
MS-16818Y (76111B)	Surg Lt	Nikhil Kumar Mestha	27 Sep 2015
MS-16840K (76112F)	Surg Lt	Pratibha Chandra	27 Sep 2015
MS-16857X (76131Z)	Surg Lt	Subhankar Datta	30 Sep 2015

CAPT TO MAJ

MS-16414W	Capt	Joginder Singh	30.06.2013
MS-16614M	Maj	Loitongbam Bhumeshowri Devi	15.06.2014
MS-16227X	Capt	Narendra Yadav	12.08.2013
MS-16600M	Capt	Mayank Aggarwal	15 Jun 2014
MS-15967A	Capt	Pravendra Singh	11 Feb 2014
MS-16605L	Maj	Priyanka Tripathi	15 Jun 2014
MS-16738F	Maj	Dileep Ramakrishnan	12 Jul 2014
MS-16862H	Maj	Apar Mathur	21 Oct 2015
MS-16866Y	Maj	Vineet Vishwakarma	22 May 2015
MS-16943H	Maj	Reetika Pal	02 Nov 2015
MS-16538L	Maj	Priyanka Wadhwa	10 Feb 2015
MS-16649H	Maj	M Ziaur Rahman Hifzur Rahman	15 Dec 2013
MS-16686W	Maj	Abid Ahmad	15 Dec 2013
MS-16865W	Maj	Arun N	22 May 2015
MS-16954P	Maj	Rakhi Mohan	01 Dec 2013
MS-17157W	Maj	Sriniwas Gupta	06 Aug 2014
MS-17225Y	Maj	Vaidehi C Rajwadkar	19 Oct 2014

MS-16577K	Maj	Tarush Sinha	06 Aug 2015
MS-16944L	Maj	Gulab Singh Saroha	11 Dec 2015
MS-17211Y	Maj	Ajay Tyagi	19 Oct 2014
MS-16893H	Capt	Lohith R	17 Jan 2016
MS-17005P	Capt	Somesh Thakur	06 May 2013
MS-17435Y	Capt	Pallavi Gupta	01 Nov 2015
MS-17558L	Capt	Tushar Gogia	01 Nov 2015
MS-16872M	Maj	Sandip Nath	22 Nov 2015
MS-16480Y	Maj	Rajinder Singh	09 Jul 2013
MS-16267Y	Maj	Shailesh Singh	26 Aug 2013
MS-16739K	Capt	Sreekanth K S	12 Jul 2014
MS-16850N	Capt	Siva Sankari M	29 Mar 2013
MS-16951F	Capt	Bhattacharya Anirban Trigunes	11 Sep 2013
MS-16952K	Capt	Mohan Angadi	11 Sep 2013
MS-17136A	Capt	Shikha Sharma	06 Aug 2014
MS-17279A	Capt	Kharche Chetan Ramchandra	11 Feb 2015
MS-16859H	Capt	Neha Rachel Biswas	21 Apr 2015
MS-16377N	Capt	Rohin Kumar	29 Dec 2013
MS-16506H	Capt	Rohan Vatsya	09 Feb 2014
MS-16576F	Capt	Nirjhar Ghosh	06 Aug 2015
MS-16807M	Capt	Sumedha Vats	26 Sep 2015
MS-16809X	Capt	Pooja Sharma	26 Sep 2015
MS-16817W	Capt	Ikraj Singh	27 Sep 2015
MS-16831H	Capt	Aroma Ghotra	27 Sep 2015
MS-16841M	Capt	Gurjot Singh	27 Sep 2015
MS-16843X	Capt	Sabarirajan P	27 Sep 2015
MS-16844A	Capt	Akhil Raj NP	27 Sep 2015
MS-17245M	Capt	Amitava Layek	19 Apr 2014
MS-16851W	Capt	Pankaj Vats	29 Sep 2015
MS-15933M	Capt	Hari Ram Prasad	30 Sep 2012
MS-16742K	Capt	Nitin Gupta	14 Jan 2014
MS-16889A	Capt	Vishwavijet Mopagar	17 Jan 2013
MS-17226F	Capt	Shibananda Mallick	19 Apr 2014
MS-17240N	Capt	Sanghita Barui	21 Mar 2014
MS-17241W	Capt	Parikshit Sanyal	21 Mar 2014
MS-16560W	Capt	Vipin Kumar Pathak	10 Feb 2015

TO BE CAPT

MS-17093W	Capt	Kumud Kishlaya	01.03.2014
MS-17127Y	Capt	Mathews N Mathew	24.08.2014
MS-17330P	Capt	Om Panda	03.03.2015
MS-17385Y	Capt	Abhilash Singh	07.08.2015
MS-17318N	Capt	S Vishnu Prasad Pillai	01.03.2015
MS-17334L	Capt	Bimbit Kumar Mishra	03.03.2015
MS-17303L	Capt	Shikhar Garg	03 Mar 2015
MS-17306Y	Capt	Prachi Verma	03 Mar 2015
MS-17309M	Capt	Amrit Shovan Dash	03 Mar 2015
MS-17324F	Capt	Yadvender Singh	03 Mar 2015
MS-17111N	Lt	R Pramod	01 Mar 2014
MS-17320L	Capt	Nachiketa	03.03.2015
MS-17295X	Lt	Varun Bhatia	03 Mar 2015
MS-16914N	Capt	Akhil KR	23 Feb 2013
MS-17310F	Capt	Sarvesh Kohli	03 Mar 2015
MS-17297H	Capt	Ankit Kumar	03 Mar 2015
MS-17314X	Capt	Jyoti Mishra	03 Mar 2015
MS-17323Y	Capt	Abhijit Gohain	03 Mar 2015
MS-17338F	Capt	Ankit Dhaka	03 Mar 2015
MS-17102M	Capt	Syed Fraz Iqbal	01 Mar 2014
MS-17299N	Capt	Samvedna Khatri	03 Mar 2015
MS-17333H	Capt	Akshay Jain	03 Mar 2015
MS-17335N	Capt	Tajbinder Singh Bains	03 Mar 2015
MS-17110L	Capt	Finehas Pinto M	01 Mar 2014
MS-17304N	Capt	Sunanda Yadav	03 Mar 2015
MS-17327P	Capt	Amit Atwal	03 Mar 2015

SURG SUB LT TO SURG LT

MS-17294P (76269N)	Surg Sub Lt	MD Dipu Rajan	03 Mar 2015
MS-17319W (76265B)	Surg Sub Lt	Jose P Davis	03 Mar 2015

RK RANYAL
Air Cmde
Dy DGAFMS (HR)

(ARMY BRANCH)

No. 152, dated 16 June 2016—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service on attaining the age of superannuation :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No	Rank	Name	Date of Birth	Date of Retirement
NTR-16654N	Col	Gorakh Nath Singh	04 Jan 1958	31 Jan 2015 (AN)
NTR-16602X	Lt Col	Kamal Singh	05 Feb 1959	28 Feb 2015 (AN)

R K RANYAL
Air Cmde
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 153, dated 17th June 2016—The President is pleased to make the following amendment:-

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
CORRIGENDUM

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-16942A CAPT HARKUNWAR SINGH PUBLISHED IN GOVT OF INDIA GAZETTE DATED 30 AUG 2014 IS AMENDED AS FOLLOWS:-

FOR : 02.12.2011
READ : 02.11.2011

CORRIGENDUM

THE DATE OF SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION, CONSEQUENT TO GRANT OF ANTE DATE SENIORITY, IN RESPECT OF MS-16477Y CAPT JYOTI MOTIRAM GULVE (DOC : 09.01.2010) PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA DATED 13-02-2016 IS AMENDED AS FOLLOWS:-

FOR	:	<u>DOS FOR CAPT</u>	<u>DOS FOR MAJ</u>
		09-01-2010	09-01-2014
READ	:	<u>DOS FOR CAPT</u>	<u>DOS FOR MAJ</u>
		09-07-2009	09-07-2013

RK RANYAL
Air Cmde
Dy DGAFMS (HR)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in